



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 12 वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का आयोजन

नई दिल्ली, 22 जून 2026: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के दिशा-निर्देश में, नई दिल्ली स्थित अपने निगमित मुख्यालय में 12 वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम "स्वस्थ आयु के लिए योग" रखी गई।

इस कार्यक्रम में भाविप्रा और नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी समग्र स्वास्थ्य, सचेतनता और स्वस्थ जीवन शैली के उद्देश्य के साथ एक मंच पर एकत्रित हुए। इससे नागर विमानन क्षेत्र में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संगठन की प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति हुई।

इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और योग शपथ के साथ हुई। नागर विमानन मंत्रालय के सचिव श्री समीर कुमार सिन्हा द्वारा भाविप्रा के अध्यक्ष श्री विपिन कुमार, भाविप्रा के बोर्ड सदस्यों और नागर विमानन मंत्रालय व भाविप्रा के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यह शपथ दिलाई।

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रशिक्षित अनुदेशकों द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया एवं इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' सत्र था। प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न प्रकार के आसनों, प्राणायाम अभ्यासों और निर्देशित ध्यान क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया गया, जिससे सामूहिक सद्भाव और सचेतनता की भावना को बढ़ावा मिला।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रव्यापी आयोजन के अनुरूप, देश भर में भाविप्रा के हवाई अड्डों और प्रतिष्ठानों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों और हितधारकों को स्वस्थ और बेहतर जीवन के लिए योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक स्वस्थ और सुदृढ़ कार्यबल के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, यह भारत की समृद्ध एवं स्वस्थ जीवन शैली से संबंधित परंपराओं को बढ़ावा देने और विमानन क्षेत्र में सकारात्मक, समावेशी और संधारणीय कार्य संस्कृति को विकसित करने के लिए भी कार्य कर रहा है।

*निगमित संचार निदेशालय, भाविप्रा द्वारा जारी
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: महाप्रबंधक (निगमित संचार) 011-20818228
प्रेस विज्ञप्ति संख्या 05/2026-27*

